

July 27, 2022

The General Manager
Department of Corporate Services **BSE Limited**25th Floor, P.J Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 539199 Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement of Completion of Despatch of the notice of Postal <u>Ballot</u>

In continuation of our letter dated 25th July 2022 & pursuant to Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Newspaper Advertisement, inter-alia, regarding completion of dispatch of Notice of Postal Ballot of the Company.

We request you to kindly take the above information on your record.

Thanking you,

For Moongipa Securities Limited

Sanjeev Jain

Company Secretary and Compliance Officer

Encl: Newspaper Copy

FINANCIAL EXPRESS



The Shipping Corporation Of India Ltd.

(A Government of India Enterprise)

T & OS Division, 5th Floor, Shipping House, Madam Cama Road, Mumbai-400021, India Tel. No.: 91-22-22772182 Fax: 91-22-22854790 E-mail: dirtos.sect@sci.co.in

TENDER NOTICE - ACQUISITION OF SECONDHAND/RESALE PSV

The Shipping Corporation of India Ltd. (SCI) is interested in acquiring a Secondhand / Resale PSV upto 10 years old. Bidders are requested to visit our website www.shipindia.com or www.eprocure.gov.in for further details.

The participating bidders would have to submit their Vessel Offer(s) latest by 1700 hrs (IST) of August 17, 2022 to the Director (T&OS) at the above address.

> THE LOCAL PROPERTY AND ASSESSED ASSESSED. TRANSPORTING GOODS. TRANSFORMING LIVES.



Bharat Rasayan Limited Read, Office: 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi - 110008. CIN: L24119DL1989PLC036264

Email: investors.brl@bharatgroup.co.in Website: www.bharatgroup.co.in NOTICE is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, August 9, 2022, interalia, to consider and approve the standalone & consolidated unaudited financial results of the Company for the quarter and three months ended June 30, 2022.

The said Notice may be accessed on the Company's website a http://www.bharatgroup.co.in and may also be accessed on the Listed Stock Exchange website at http://www.nseindia.com.

Further, the Trading Window of the Company shall remain closed from July 26, 2022 to August 11, 2022 (both days inclusive) for the specified persons in terms of Code of Conduc of the Company to regulate, monitor and report of trading in Company's securities by insider framed under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

> For BHARAT RASAYAN LIMITED (NIKITA CHADHA

New Delhi July 26, 2022 Company Secretary

ReLIANCE

SECURITIES

A RELIANCE CAPITAL COMPANY

RELIANCE SECURITIES LIMITED

Registered Office: 11th Floor, R - Tech IT Park, Nirlan Compound, Off Western Express Highway Goregaon (East), Mumbai - 400063 | CIN: U65990MH2005PLC154052 Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended June 38, 2022. [Regulation 52 (8) read with Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")) /T in Lakh except per share date

		Quarter Ended			Year Ended	
Sr.No.	Particulars	June 30, 2022	Mar 31, 2022	June 38, 2021	Mar 31, 2022	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations	5,515	7,842	10,928	33,598	
2	Net Profit / (Loss) for the Period before Tax (before Exceptional and/or Extraordinary items)	361	1,224	379	2,646	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	361	1,224	379	2,646	
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	69	752	379	1,818	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	73	761	379	1,837	
6	Paid-up equity share capital and convertible preference shares (Face value of Rs. 10/- each)	23,500	23,500	23,500	23,500	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(11,000)	(11,072)	(12,529)	(11,072)	
8	Securities Premium Account	***	100000000000000000000000000000000000000			
9	Net worth	9,999	9,930	8,492	9,930	
10	Outstanding Debt	5,262	7,288	10,834	7,288	
tt.	Outstanding Redeemable Preference Shares	50	35	20	1,50	
12	Debt Equity Ratio	0.44	0.60	0.99	0.60	
13	Earning per share on Equity Shares of Rs. 10/- each (for continuing and discontinuing operations)					
	Basic	0.03	0.34	0.17	0.83	
	Diluted	0.03	0.34	0.17	0.83	
14	Capital Redemption Reserve	NA.	NA	NA.	NA.	
15	Debenture Redemption Reserve	560	560	560	560	
16	Debt Service Coverage Ratio	0.09	0.51	1.16	0.90	
17	Interest Service Coverage Ratio	3.31	(4.39)	1.50	3.05	

- 1. The above is an extract of the detailed format of quarter ended financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarter ended financial results are available on the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and the Company's website i.e. www.reliancesmartmoney.com 2 For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
- Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to BSE Limited and can be accessed on the website of BSF Limited), e. www.bseindia.com
- 3 There were no exceptional or extraordinary items.

RELIANCE SECURITIES LIMITED Lav Chaturvedi

Place: Mumbai Date: July 26, 2022 Executive Director & CEO DIN: 02859336

For and on behalf of the Board of Directors of



CIN:L74899DL1994PLC057941 Registered Office: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005, India Email: moongipas@gmail.com; Website : www.moongipa.net Phones: 011-41450121; Fax:011-41450122

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Act"), Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings ("SS-2") and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, Moongipa Securities Limited ("the Company") is seeking approval from its Members for passing of Resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated July 25,2022 ("Postal Ballot Notice") by way of electronic voting ("remote e-voting").

In terms of relevant provisions of the Act and in accordance with the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding general meetings/conducting postal ballot process through remote e-voting vide General Circular No.14/2020 dated April 8, 2020 read with General Circular Nos.17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 08, 2021 and 3/2022 dated May 05, 2022 ("MCA Circulars"), the Postal Ballot Notice along with the instructions regarding e-voting has been sent through email on Monday, July 25, 2022 to all those Members whose email address is registered with the Company or with the Depositories/Depository Participants or Skyine Financial Services Private Limited ("R&TA") and whose names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners as on Friday, July 22, 2022 ("Cut-off Date").

Members may also note that in compliance with the above MCA Circulars, the communication of assent/dissent of the members on the resolution proposed in this notice will only take place through the remote e-voting system.

All the Members are hereby informed that:

- (a) The e-voting period commences on Tuesday, July 26, 2022 and ends on Wednesday, August 24, 2022 for all the shareholders, whether holding shares in physical form or in demat form. The e-voting module shall be disabled by CDSLfor voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date.
- (b) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Friday, July 22, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.
- (c) The Notice is being sent to all the Members, whose names appear on the Register of Members/Record of depositories as on Friday, July 22, 2022. A person who is not a member on the cut-off date should accordingly treat the Postal Ballot Notice as for information purposes only.
- (d) The Company has appointed Shri Jatin Gupta, Practising Company Secretary (Membership No.: FCS 5651: COP No.: 5236), as scrutinizer for conducting the entire postal ballot process by way of remote e-voting in a fair and transparent manner. (e) Any members who have not received the postal ballot notice may apply to the
- Company at The Company Secretary, 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi, Delhi, 110005. (f) The members may view the notice of the aforesaid meeting by accessing the following
- websites: www.moongipa.net and [website of CDSL/NSDL]. The same may also be accessed on the website of Stock Exchange i.e. www.bseindia.com. (g) The results of the Postal Ballot/e-voting will be declared on or before Friday, August 26, 2022 at 5:00 P.M. (IST) at the registered office of the Company by the Chairman or any other person authorized by him in that behalf. The results alongwith scrutinizer's

Members who have not registered their email address and in consequence could not receive the Postal Ballot Notice may get their email address registered by sending a request alongwith the requisite annexure available on the website of the Company i.e. www.moongipa.net through an email to the RTA at virens@skylinerta.com or to the

Company at moongipas@gmail.com. Post successful registration of the email, the member would get a soft copy of the notice and the procedure for e-voting along with the User ID and Password to enable e-voting for

If you have any queries or issues regarding e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 022-23058542/43. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25" Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi

> By order of the Board For Moongipa Securities Limited Sanjeev Jain Company Secretary

Place: Bengaluru

Date: 26/07/2022

(Prchies

The most special way to say you care

ARCHIES LIMITED

Regd. Office: 191F, Sector-4, IMT Manesar, Gurugram, Haryana-122050 CIN: L36999HR1990PLC041175, Web: www.archiesonline.com Email: archies@archiesonline.com, Tel: +91 124 4966666, NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA")

has vide its General Circular nos. 14/2020 dated April 8, 2020; 17/2020 dated April 13

NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") (herein after referred to as "electronic mode") to transact the business, as set out in the Notice of the Annual General Meeting which is being circulated for convening the Annual General Meeting.

2020; 20/2020 dated May 05, 2020; 02/2021 dated January 13, 2021; 19/2021 dated December 08, 2021; 21/2021 dated December 14, 2021 and 02/2022 dated May 05, 2022 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of Annual General Meeting through VC or OAVM without the physical presence of Members at a common venue. In compliance with these MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Annual General Meeting of the Members of the Company will be held through VC/OAVM. The Company will be sending the AGM Notice along with Annual Report for the financial year 2021-22 electronically to those members who have registered their

email IDs with the Company / Depository Participants and or the Company's Registrar and Share Transfer Agent in compliance with MCA Circulars and circulars issued by SEBI dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022. Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only. Details and Instructions to attend, vote and view the proceedings of the AGM will be provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members holding equity shares in physical form who have not registered their email ID may get the same registered with Company / RTA. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. Notice of the AGM will be made available on the website of the Company i.e. www.archiesonline.com

In case the shareholder's email ID is already registered with the Company/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address.

In case the shareholder has not registered his/her/their email address with the Company/ its RTA/Depositories and or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend, the following instructions to be followed:

(i) Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd. www.linkintime.co.in under Investor Services > Email/Bank detail Registration - fill in the details, upload the required documents and submit. ii) In the case of Shares held in Demat mode:

The shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP. The Company is providing a facility of voting through electronic means i.e remote e-

voting and evoting at the AGM to be held through VC/OAVM, to vote on the business set out in the AGM Notice. Detailed instructions for attending the meeting through VC/ OAVM or casting vote by remote e-voting or e-voting at the AGM will be provided in the AGM Notice. Members who have not registered their email ID can procure User ID and password by following the instructions provided in the AGM Notice.

By order of the Board For Archies Limited Sd/-Hitesh Kumar

Company Secretary

Place: New Delhi Date: 26.07.2022

A VST GROUP ENTERPRISE TRACTOR TRACTORS LTD.

CIN- L34101KA1967PLC001706

Registered office: Plot No-1, Dyavasandra Indl Layout, Whitefield Road, Mahadevapura PO., Bengaluru 560 048 Ph: 080 - 67141111 e-mail: vstgen@vsttractors.com. www.vsttractors.com.

INFORMATION REGARDING 54th ANNUAL **GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD** THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER **AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) AND** PAYMENT OF DIVIDEND

 Shareholders may note that the 54th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, the August 19, 2022 at 11.00 a.m. IST through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April 2020, 17/2020 dated 13th April 2020, 20/2020 dated 5th May 2020, 02/2021 dated 13th January 2021, 2/2022 dated 05th May, 2022 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of the (SEBI), to transact the Ordinary and Special business as set out in the Notice of the AGM which is being sent to the Members by email only.

Company's Regd. Office: Plot No. 1, Dyavasandra Industrial Layout, Whitefield Road, Mahadevapura Post, Bangalore - 560 048 will be considered as venue for the purpose of the AGM.

- 3. In compliance with relevant Circulars, the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2021-22 will be sent electronically to those Members of the Company, whose email addresses are registered with the Company/ Depositary Participants(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.vsttractors.com as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
- The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 13th August 2022 to 19th August 2022 (both days inclusive) for the purpose of ascertaining the Shareholders attending the AGM and payment of Dividend.
- Members holding shares in physical form or Demat form and have not registered their email address, may procure User ID and Password as mentioned in the 54th AGM notice or in the following manner for casting their vote through remote e-voting or though the e-voting system during the meeting.
- a) In case shares are held in physical mode, by writing to the Company with details of Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to Company on vstagm@vsttractors.com / RTA on irg@integratedindia.in
- b) In case shares are held in demat mode by writing to the Company with details of DPID, Client ID (16 digit DPID +CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self scanned copy of Aadhar card) to Company on vstagm@ vsttractors.com / RTA on irg@integratedindia.in.
- The detail procedure for casting the vote through remote e-voting, e-voting during the AGM and procedure for attending the AGM, will be provided in the notice of the AGM.
- 6. Those members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, may register their email address by communicating/writing to the Company's Register & Share Transfer Agent ("RTA") M/s.Integrated Registry Management Services Private Limited, No. 30, Ramana Residency, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bangalore – 560003, Tel: +91-80-23460815-818 at irg@integratedindia.in along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the shareholder, Self- attested copy of the PAN card and self-attested copy of any document (e.g. Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the shareholder. The members who are holding shares in demat form, can update their email address with their respective Depository Participants.
- 7. The Board of directors of the Company has recommended final dividend of Rs.20/- per share and same will be paid on or after 22nd August 2022 if approved by the shareholders in the ensuing AGM. To avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update their complete bank details with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (where shares are held in physical mode) at irg@integratedindia.in along with the copy of the signed request letter mentioning the name, folio number, bank details, self-attested pan card and cancelled cheque leaf.
- Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of Members w.e.f. April 1,2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to Members at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the Members are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. The Members are requested to update their PAN with the Company / Registrar and Transfer Agent (in case of shares held in physical mode) and with the Depository Participants (in case of shares held in Demat mode) and submit the documents in accordance with the provisions of Income tax act for claiming tax exemption if applicable on or before 12th August 2022, by submitting the documents in the following link i.e. https://www.integratedindia.in/ExemptionFormSubmission.aspx for V.S.T. TILLERS TRACTORS LIMITED

(Sd/-) Chinmaya Khatua Company Secretary KAKATIYA CEMENT SUGAR & INDUSTRIES LIMITED 1-10-140/1, 'GURUKRUPA', Ashok Nagar, Hyderabad-500020.

CIN: L26942TG1979PLC002485 Website: www.kakatiyacements.com Dear Members, NOTICE TO SHAREHOLDERS

Sub: Transfer of divided and shares to IEPF Authority Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 the unclaimed dividend for the year ended 31" March, 2015 which remained unclaimed for a period of seven years is due for transfer to IEPF and the corresponding shares if any on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in Rules. The company has sent individual notices to the concerned shareholders and the details of

such shares to be transferred to IEPF are also made available on the website of the company at www.kakatiyacements.com, to verify the details of their unclaimed dividence and the shares liable to be transferred. Shareholders are requested to claim the dividend declared for the financial year ended 31" March, 2015 and for subsequent years immediately before the same is transferred IEPF. In case the company does not receive any communication from the concerned

shareholders by 09.09.2022 the company shall transfer the shares to IEPF as per the due date in terms of procedures set out in the Rules without any further notice. Those shareholders who hold shares in physical form are requested to communicate their

Mobile No, Bank account number, name of the Bank, Branch, IFSC Code, PAN and Aadhar, address to: info@kakatiyacements.com to facilitate payment of dividend. Members holding Accounts in Banks in which merger has taken place are requested to check and mention the correct IFSC code of the bank consequent to merger Please note that no claim shall lie against the company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF. The shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if

any, from IEPF Authority upon due compliance of the procedures. For any clarification in this matter, the concerned members may write to the company or to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at the address stated herein below:-

> XL Softech Systems Limited (Unit: Kakatiya Cement Sugar & Industries Limited) 3, Sagar Society, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-500034. Phone: 040 23545913/14/15 Email: xlfield@gmail.com

Place: Hyderabad Date: 26.07.2022

For Kakatiya Cement Sugar & Industries Limited Sd/- V Sesha Sayee Company Secretary and Compliance Officer

SALE NOTICE - E-AUCTION RAINBOW DENIM LIMITED (IN LIQUIDATION)

CIN: L18101PB1999PLC022452 Registered Office and Works: Village Chaundheri, Post Office Dappar, Chandigarh-Ambala National Highway, Tehsil Derabassi, Distt. SAS Nagar (Mohali) Lalru - 140506 (Punjab)

Liquidator: Mr. Dharmendra Kumar Bhasin Liquidator's Address: 191, Mamta Enclave, Dhakoli, Zirakpur, SAS Nagar, Punjab - 140603 Email: liquidator.rainbowdenim@gmail.com, ipdkbhasin@gmail.com, Mobile:9877932667

Sale of Assets of Corporate Debtor (In liquidation) under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Last date for submission of Earnest Money Deposit (EMD): 11-Aug-2022 by 6.00 pm Date and Time of E-Auction:17-Aug-2022 at 3.00 pm to 4.00 pm (With unlimited extension of 5 minutes each)

Sale of Rainbow Denim Limited (in Liquidation) as a going concern by the Liquidator appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench vide order dated 12-April-2022.

The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform https://ncltauction.auctiontiger.net

Asset	Reserve	Initial EMD	Incremental
	Price	Amount	Value
	(Rs./ Crores)	(Rs./Crores)	(Rs./ Crores)
Sale of Corporate Debtor as a Going Concern – All assets excluding liabilities of the Corporate Debtor on a going concern basis as per Regulation 32A of IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016 Specific Exclusions – a) Cash and cash equivalents b) Any assets or their value recovered through proceedings for avoidance of transactions in accordance with Chapter III of the IBC	Crores	5.22 Crores	0.10 Crore

Process Information Document, uploaded on the website of IBBI, Rainbow Denim Limited and E-Auction Service Provider. Some of terms and conditions of E-auction are mentioned below for ease of reference:

 The E-Auction will be conducted strictly on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" "WHATEVER THERE IS BASIS" and "WITHOUT RECOURSE BASIS" through approved service provider M/s e-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger). 2. The complete and detailed information about the assets of the company, online eauction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available in the "E-Auction Information Process Document". The sale notice must be read along with the E-Auction Process Information Document which is available at https://rainbowdenim.com and at https://ncltauction.auctiontiger.net 3. The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent

satisfy themselves. The properties mentioned above can be inspected by the prospective bidders at the site mentioned above with the prior appointment from the Liquidator. 4. The intending bidders are required to deposit EMD amount either through NEFT/RTGS in the account no. 529101010035157 of "Rainbow Denim Limited- In Liquidation" with Union Bank of India, Branch: PUDA Phase- I (Mohali) Branch, SAS Nagar- 160055, IFSC Code: UBIN0552917 (fifth character is zero) or DD drawn on any Scheduled

inquiries regarding the title of property, dues of local taxes, electricity and water charges

maintenance changes, licenses, if any and inspect the property at their own expenses and

Bank in the name of "Rainbow Denim Limited - In Liquidation". The intending bidder should submit evidence of EMD deposit/DD and Request letter for participation in e-auction along with the documents specified in "E-Auction Process" Information Document".

The sale is subject to the (a) provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. regulations made thereunder and (c) the terms of E-Auction Process Document issued by the Liquidator (available at https://rainbowdenim.com) 7. It is clarified that, this invitation purports to invite prospective bidders and does not create

effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and / or not to accept and / or disqualify any interested party /potential investor/ bidder without assigning any reason and without any liability. 8. In case, bidder fails to tender any bid during the e-auction process of CD as going concern, and pursuant to which the auctions fails, in that scenario, the bidder shall be

any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Corporate Debtor to

debarred and disqualified from taking part in subsequent auction processes conducted by the Liquidator. Dharmendra Kumar Bhasin Liquidatorinthematterof Rainbow Denim Limited Registration No : IBBI/IPA-002/IP-N00816/2019-2020/12564

Address: 191, Mamta Enclave, Behind Nimantran Banquet Hall, Date: 26-July-2022 Dhakoli, Zirakpur, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab - 140603 Place: Zirkapur Email id: ipdkbhasin@gmail.com Mobile: 9877932667

ASSAM POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED A customer centric company TENDER NOTICE

E-tenders with a validity upto 180 days from the last date of bid submission are hereby invited from eligible bidders for Supply, Construction and Installation of HT related works within the jurisdiction of Bongaigaon Electrical Circle of APDCL under Distribution Infrastructure Works (Loss Reduction) of Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS). The bid document along with other relevant information will be available for download in www.apdcl.org and www.assamtenders.gov.in as mentioned hereunder:

NIT NO:CGM(PP&D)/APDCL/RDSS/Bongaigaon/LR/Pkg-II Dtd.14.06.2022 Date & Time Description 27.07.2022 at 16:00 hrs. Date of Download of RFB/NIT 01.08.2022 at 12:00 hrs. Pre-Bid Meeting Bid Submission start date and time 08.08.2022 from 12:00 hrs. Deadline for Bid Submission 23.08.2022 till 15:00 hrs. Date & time of opening of Technical 25.08.2022 at 12:00 hrs. part of Bid Any changes of the above will be notified subsequently through amendment

Sd/-, Chief General Manager (PP&D), APDCL

Please pay your energy bill on time and help us to serve you better!



ASSAM POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED A customer centric company

TENDER NOTICE E-tenders with a validity upto 180 days from the last date of bid submission

are hereby invited from eligible bidders for Supply, Construction and Installation of HT related works within the jurisdiction of Dibrugarh Electrical Circle of APDCL under Distribution Infrastructure Works (Loss Reduction) of Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS). The bid document along with other relevant information will be available for download in www.apdcl.org and www.assamtenders.gov.in as mentioned hereunder:

Description	Date & Time
Date of Download of RFB/NIT	27.07.2022 at 16:00 hrs.
Pre-Bid Meeting	01.08.2022 at 12:00 hrs.
Bid Submission start date and time	08.08.2022 from 12:00 hrs
Deadline for Bid Submission	23.08.2022 till 15:00 hrs.
Date & time of opening of Technical part of Bid	25.08.2022 at 12:00 hrs.

Sd/-, Chief General Manager (PP&D), APDCL

Please pay your energy bill on time and help us to serve you better!



Tender Enquiry No.

TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED A Tata Power and Delhi Government Joint Venture TATA POWER-DDL Regd. Office: NDPL House, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi 110 009 Tel: 66112222, Fax: 27468042, Email: TPDDL@tatapower-ddl.com CIN No.: U40109DL2001PLC111526, Website: www.tatapower-ddl.com

of Bid

July 27, 2022

Last Date & Time

of Bid Submission/

Contracts - 011-66112222

NOTICE INVITING TENDERS

Cost/EMD

TATA Power-DDL invites tenders as per following details Estimated Availability

Date and time of Work Description Document Opening of bids TPDDL/ENGG/ENQ/200001443/22-23 9.92 Crs/ 17.08.2022;1400 Hrs 27.07.202 Contract for Supply of 11mtr and 9mtr PCC 9,45,000 17.08.2022:1430 Hrs HT/LT Poles at Tata Power-DDL Site/Store 27.07.2022 17.08.2022;1700 Hrs TPDDL/ENGG/ENQ/200001442/22-23 74 Crs/ Two years' RC for Meter Installation and 13,10,000 17.08.2022:1730 Hrs associated works PAN Tata Power-DDL 28.07.2022 18.08.2022;1600 Hrs TPDDL/ENGG/ENQ/200001445/22-23 83.70 Lacs/ Annual Rate Contract for supply of Stay 2,10,000 18.08.2022:1630 Hrs Wire at Tata Power-DDL Site/Store CORRIGENDUM / TENDER DATE EXTENTION Previously | Revised Due Date & Time Tender Enquiry No.

of Bid Submission/ Date Published Work Description & time of opening of bids Date TPDDL/ENGG/ENQ/200001422/22-23 02.08.2022 at 1600 Hrs/ 21.06.2022 Transitioning to Microsoft O365 02.08.2022 at 1630 Hrs Complete tender and corrigendum document is available on our website www.tatapower-ddl.com-→Vendor Zone --> Tender / Corrigendum Documents

COMPUCOM COMPUCOM SOFTWARE LIMITED IT: 14-15 EPIP, Sitapura, Jaipur-302022 (Rajasthan) (India) Software Limited

Tel. 0141-2770131, Fax: 0141-2770335, 5115905 Email: cs@compucom.co.in, Website: www.compucom.co.in

CIN:- L72200RJ1995PLC009798

NOTICE (For the attention of equity shareholders of the Company)

Sub: Transfer of equity shares of the company to Investor

Education and Protection Fund (IEPF) Authority This Notice is published pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013, the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016

read with the relevant circulars and amendments thereto ('IEPF Rules'), that the Company has sent intimation to the shareholders concerned regarding transfer of their shares to the Demat Account of the IEPF Authority in accordance with the IEPF Rules, in case they do not encash any of their dividend(s), which remains unpaid/unclaimed for last seven (7) consecutive years, by the next due date of transfer i.e. 28th October, 2022. The details of such shareholders including their folio number or DP and Client ID and number of shares due for transfer are also available on the Investors section of the Company's website at www.compucom.co.in. The concerned shareholders are advised to make their claim for the unclaimed dividends in respect of the shares held by them by writing to the Company or the Company's Registrars & Share Transfer Agent, MCS Share Transfer Agent Limited, F-65 1st Floor Okhla Industrial Area, Phase-I New Delhi-110020, India, Phone No.: +91-11-41406149, Fax: +91-11-41709881, Email: admin@mcsregistrars.com. In case shareholders wish to claim the shares/dividend after its transfer to IEPF, a separate application has to be made to the IEPF Authority, in form IEPF-5, as prescribed under IEPF Rules and the same is available along with all details at the IEPF website: www.iepf.gov.in.

In case the company does not receive any communication from concerned shareholders by 27th October, 2022, the company shall, with a view to complying with the requirements set out in the IEPF Rules dematerialize and transfer the shares to IEPF Authority by way of corporate action by the due date as per procedure stipulated in the IEPF Rules.

For Compucom Software Limited SdJ- (Swati Jain) Company Secretary & Compliance Officer FCS: 8728

Place: Jaipur

Date: 26.07.2022



Registered Office: One International Center, Tower 2, 12th and 13th Floor,

Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

Investors may note that pursuant to Regulation 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 5, 2018, a soft copy of the annual report of the schemes of Franklin Templeton Mutual Fund and abridged summary thereof for the period ended March 31, 2022 has been uploaded on Franklin Templeton Mutual Fund's website (www.franklintempletonindia.com) and on the website of AMFI (https://www.amfiindia.com).

The scheme annual reports or abridged summary thereof shall also be emailed to those unitholders, whose email addresses are registered with the Mutual Fund. Unitholders can submit a request for a physical or electronic copy of the scheme wise

E-mail: service@franklintempleton.com

AFA Valid Upto: 17-Nov-2022

Written request (letter) at Franklin Templeton Branch Offices (Investor Service Centres) (Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Avinash Satwalekar President

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

New Delhi

Franklin Templeton Mutual Fund

NOTICE


annual report or abridged summary thereof via following modes: Tel: 1-800-425 4255 or 1-800 -258- 4255 from 8:00 a.m. to 9:00 p.m., Monday to Saturday.


For Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.


Sd/-

Date: July 25, 2022

financialexp.epap.in







report shall be placed on the website of the Company and on the website of the CDSL and communicated to the Stock Exchange where the Company's shares are listed.

Marg, Lower Parel (East), Mumbai.

Date: 25.07.2022 Place : Delhi

this Postal Ballot.

कॉटिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड पंजीकत कार्यालय: फ्लैट नं. 301, मेटो प्लाजा, परिवहन मार्ग, जयपर-302001 (राजस्थान) CIN: L67120RJ1990PLC005371, फोन: 0141-2943037

ई: मेल: continentalsecuritieslimited@gmail.com, वेबसाईट : www.continentalsecuritiesltd.com भारतीय प्रतिभृति और विनियम मंडल (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में एतद् द्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 30 जुलाई, 2022 को साथं 4:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें कंपनी के 30 जुन, 2022 को समाप्त प्रथम तिमाही के स्टैण्डअलोन गैर अंकेशित विलीच परिणामों पर विचार एवं उन्हें अनुमोदित किया जायेगा। यह भी सुचित किया जाता है कि कंपनी के शेयर में डील करने हेत् ट्रेडिंग विंडो कंपनी नामित सदस्यों और उनके

कृते कॉटिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड तारीख: 26.07.2022




Bharat Rasayan Limited Regd. Office: 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi - 110008. CIN: L24119DL1989PLC036264

NOTICE is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, August 9, 2022, interalia, to consider and approve the standalone & consolidated unaudited financial results of the Company for the guarter and three months ended June 30, 2022.

The said Notice may be accessed on the Company's website a http://www.bharatgroup.co.in and may also be accessed on the Listed Stock Exchange

Further, the Trading Window of the Company shall remain closed from July 26, 2022 to August 11, 2022 (both days inclusive) for the specified persons in terms of Code of Conduc of the Company to regulate, monitor and report of trading in Company's securities by insiders

(NIKITA CHADHA)



कार्यालयः एवफिस, प्रथम तल, ए—24/9, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट मथुरा रोड, सैदाबाद, नई दिल्ली-110044, दूरभाषः 91-11-41133905 ई—मेलः investors@e2enetworks.com, वेबसाइटः https://www.e2enetworks.com/

("एजीएम") का आयोजन बुधवार 24 अगस्त 2022 को अपराहन 04.00 बजे (भामास) वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से, एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन-देन करने हेत् किया जाएगा।

04.00 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

एजीएमी की सूचना के साथ 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणामों सहित वार्षिक प्रतिवेदन उन सदस्यों को प्रेषित किया जाएगा, जिनके ई–मेल पते एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई 2022 के अनसार कंपनी / रजिस्टार तथा अंश अंतरण अभिकर्ता ("आरटीए") अथवा संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकत हैं। सदस्यगण कपया ध्यान रखें कि एजीएमी की सचना तथा वर्ष 2021–22 का वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट अर्थात https://www.e2enetworks.com पर. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के अंश सचीबद्ध हैं, वहां अर्थात https://www.nseindia.com पर तथा लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) की वेबसाइट अर्थात www.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होगा। एजीएम से जुड़ने के अनुदेश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत वीसी/ओएवीएम के

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सचना में निर्धारित समस्त संकल्पों पर अपना मतदान करने के लिए दरस्थ ई-मतदान सुविधा ("दूरस्थ ई-मतदान") उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम ("ई-वोटिंग" के दौरान ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-मतदान में भागीदारी करने अथवा ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की प्रविधि एजीएम की सूचना

भौतिक एवं अभौतिक प्रारूप में अंश धारण करनेवाले सदस्यगण जिन्होंने कंपनी / आरटीए के साथ अथवा संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए गए है, वे ईमेल आईडी के माध्यम से वर्ष 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन और एजीएम की सूचना प्राप्त करने/वीसी व ओएवीएम के माध्यम सेएजीएम में उपस्थित होने के लिए investors@e2enetwork.com पर ईमेल करके कंपनी के साथ अस्थायी रूप में अपनी ईमेल आईडी पंजीकत कर सकते हैं तथा ऐसा करने के उपरांत मार्गदर्शितानुसार अस्थायी पंजीकरण प्रक्रिया का

कंपनी के सदस्यों की पंजिका तथा अंश अंतरण बहियां एजीएम के उददेश्यार्थ बृहस्पतिवार 18 अगस्त 2022 से लेकर के बुधवार 24 अगस्त 2022 (दोनों दिन सिम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22, अंशधारकों को नियत समय पर उनके पंजीकृत ईमेल पतों पर

दिनांकः 25 जुलाई 2022 स्थानः नई दिल्ली

नेहा वैद्य

शुद्धिपत्र–विस्तार– बिक्री सूचना दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत परिसंपत्तियों की बिक्री देव डेंसो पावर लिमिटेड (परिसमापन में)

कृपया दिनांक 17 जुन 2022 को द फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जनसत्ता समाचारपत्रों (दिल्ली संस्करण, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश संस्करण) में प्रकाशित देव डेंसो पावर लिमिटेड (परिसमापन में) के सम्बन्ध में बिक्री नोटिस का संदर्भ लें, और जिसका शुद्धिपत्रध्विस्तार 3 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया था। यह सुचित किया जाता है कि परिसंपत्तियों की बिक्री स्थिगितध्विस्तारित की जा रही है और अब बोलियां जम करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई, 2022 से बदलकर 23 अगस्त 2022 को सायं 5 बजे तक कर दी गई है। ई-नीलामी की तिथि और समय अब 25 अगस्त ,2022 को पर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक कर दिया गया है। अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। कृपया नीलामी के विवरणोंधनियमों एवं शर्तों के लिए पूर्ण ई—नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज / ई—नीलामी प्रक्रिय

पूजा बाहरी देव डेंसो पावर लिमिटेड के परिसमापक (परिसमापन में) दिनांकः 27 जुलाई 2022

आईपी रजि. सं. IBBI/IPA-003/IP-N00007/2016-2017/10063 59/27, प्रभात रोड, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली—110005 ईमेलः liquidation.devdensopower@gmail.com, pujabahry@yahoo.com



Bharat Rasayan Limited Regd. Office: 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008

CIN: L24119DL1989PLC036264

Email: investors.brl@bharatgroup.co.in Website: www.bharatgroup.co.in

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES Notice is hereby given that the following share certificates have been reported to be lost/misplaced/stolen and the registered shareholders/claimants therefore have requested the Company for issuance of duplicate share certificates in lieu of lost

share certificates:				
Folio No.	Name of the Shareholder	Certificate No.	No. of Shares	Distinctive Nos. (From - To)
0026055	N VISWANATHAN	17240	100	3050341-3050440
0008722	OM PRAKASH SINGH CHAWHAN	9944	100	2320741- 2320840
0013200	MADHU AGRAWAL	16010	100	2927341-2927440

Any person(s) who has/have and claim(s) in respect of the aforesaid share certificates should lodge the claim in writing with us at the above mentioned address within 15 days from the publication of this notice. The Company will not thereafter be liable to entertain any claim in respect of the said share certificates and shall proceed to issue the duplicate share certificates pursuance to Rule 6 of the Companies (Share Capital & Debentures) Rules, 2014.

> For BHARAT RASAYAN LIMITED Sd/-

New Delhi, July 26, 2022

नं. अपडेट करने के लिये अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स से सम्पर्क करें।

(Nikita Chadha) Company Secretary Memb. No. FCS10121

जेनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड

पंजी. कार्या.: 4 कि.मी. स्टोन, बेरी छर्रा रोड, ग्राम खेरका मुसलमान, पी.ओ. टंडाहेरी, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा-124507, CIN:L01122HR1994PLC033029; टेली.:+91-9811341542

| ई-मेल:genomicvallev@gmail.com; http://www.genomicvallev.com पर मिलें|

सार्वजनिक सूचना शेयरधारकों के ध्यानार्थ

कोविड-19 की अनवरत महामारी के आलोक में अपने साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल 2020; 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020; 20/2020 तिथि 05 मई, 2020; 02/2021 तिथि 13 जनवरी, 2021; 19/2021 तिथि 8 दिसम्बर, 2021; 21/2021 तिथि 14 दिसम्बर, 2021 तथा 02/2022 तिथि 05 मई, 2022 (यहां के बाद सामृहिक रूप से ''एमसीए सर्क्युलर्स'' वर्णित के माध्यम से कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') तथा सेबी सर्क्युलर तिथि 12.05.2020, 15.01.2021 तथा 13.05.2022 के माध्यम से शेयरधारकों को वार्षिक साधारण सभा की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां प्रेषित करने में छूट दी गई है तथा साथ हीं कोविड-19 महामारी को देखते हुए वर्ष 2022 के दौरान इलेक्ट्रानिक पद्धति में वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी गई है।

एतद्द्वारा हम सभी शेयरधारकों से आग्रह करते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट्स, एजीएम की सूचना तथा कम्पनी से अन्य सूचना प्रेषित किये जाने के लिये वे अपने ईमेल आईडी अपडेट करा लें। पुनः अपडेट की गई बैंक विवरण शेयरधारकों के लिये बिना किसी बैंकिंग अवरोध तथा विलम्ब के समय-समय पर कम्पनी द्वारा प्रदत्त लाभांशों के इलेक्टानिक क्रेडिट को सगम बनाएगी। कपया ध्यान रहे कि एजीएम के पर्व अथवा एजीएम के बाद सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की भौतिक प्रति नहीं भेजी जायेगी। डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से आग्रह है कि अपने ईमेल पते, बैंक मैंडेट्स तथा मोबाईल

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से आग्रह है कि अपनी धारिता को डिमैट पद्धति में रूपांतरित कराएँ क्योंकि भौतिक पद्धति में शेयरों का अंतरण सेबी द्वारा निषिद्ध किया गया है पुनः उनसे यह भी अनुरोध है कि अधोलिखित जानकारी प्रस्तुत करते हुए रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट-बीटल

फाइनांसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेस प्रा. लि./कम्पनी के पास अपना (i) ईमेलआईडी, (ii) बैंक मैंडेट तथा (iii) मोबाईल नं. पंजीकृत/अद्यतन कराऐं:

नं. पंजी	कृत/अद्यतन कराऐं:	जिन सदस्यों ने अपना ई—मेल पता पंजीबद्ध नहीं करवाया है और उसके फलस्वरूप डाक—मतदान की			
क्रम	सं. विवरण विवरण	सूचना प्राप्त नहीं कर सके हैं, वे अपने ई-मेल पता का पंजीकरण कम्पनी की वेबसाइट :			
1	नाम	www.moongipa.net पर उपलब्ध आवश्यक अनुलग्नक के साथ एक अनुरोध ई—मेल के माध्यम से			
ii		आरटीए को <u>virens@skylinerta.com</u> पर अथवा कम्पनी को <u>moongipas@gmail.com</u> पर भेजकर			
iii	,	करवा सकते हैं ।			
iv	बैंक के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित पासबुक की मूल/स्कैन की गई प्रति	ई-मेल के सफल पंजीकरण के बाद, सदस्य को सूचना और ई-वोटिंग हेतु प्रक्रिया की सॉफ्ट कॉपी के साथ इस डाक-मतदान के लिए ई-वोटिंग सक्षमता हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।			
V	मोबाईल नं.	यदि आपको सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्याएं हैं, तो			
वांछित	दस्तावेजों के साथ उक्त विवरण पुनीत मित्तल, बीटल फाइनांसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेस प्रा. लि.,-आरटीए, बीटल	आप helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल लिख सकते हैं अथवा 022-23058738 और			

हाउस, 3रा तल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली-110062 में ईमेल आईडीः punitmittal8@gmail.com अथवा श्री भवेन्द्र झा, वरिष्ठ प्रबंधक के पास ईमेल आईडीः beetalrta@gmail.com पर भेजी जा सकती है। अधिक विवरणों के लिये कृपया श्री भवेन्द्र झा (011-29961281-283) से सम्पर्क करें।

जेनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड के लिये

स्थानः हरियाणा

योगेश अग्रवार (प्रबंध निदेशक

स्थान : दिल्ली

हस्ता./-तिथि : 25-07-2022 संजीव जैन कम्पनी सेक्रेटरी

022-23058542 / 43 पर सम्पर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग हेतु सुविधा से जुडी

सभी शिकायतें श्री राकेश दाल्वी, सीनिः मैनेजर, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया)

लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्डस, एनएम जोशी मार्ग

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता बागपत वृत्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कार्यालय परिसर, मण्डोला विहार, गाजियाबाद-201102 ईमेल:-circlem@upavp.com

अधीक्षण अभियन्ता

अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण की सूचना

के सेमीफिनिश्ड भवनों के निर्माण कार्य हेतु टू— बिड सिस्टम के अन्तर्गत ऑनलाईन निविदाएं,

अल्पकालीन ई—निविदा सूचना संख्या—1051 / पी०आर०ओ०—50ई / 50, दिनांक 25.07.2022

द्वारा आमंत्रित की गयी हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट www.upavp.com एव

मूंगिपा सिक्योरिटीज लिमिटेड

सीआईएन : एल74899डीएल1994पीएलसी057941

पंजी. कार्यालय : 18/14, डब्ल्यू.ई.ए. पूसा लेन, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, भारत

ई-मेल आईडी : moongipas@gmail.com, वेबसाइट : www.moongipa.net

फोन नंबर : 011-41450121, फैक्स नंबर : 011-41450122

डाक मतदान की सूचना

सदस्यों को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और धारा 110

के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014

("अधिनियम") के नियम 20 और 22. सेबी (सचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली

2015 ("सूचीयन विनियमावली") के विनियम 44, सामान्य बैठकों के विषय में इंस्टीटयूट ऑफ

कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानकों ("एसएस-2") तथा अन्य लाग् विधियों

और विनियमों, यदि कोई, जिनमें अस्थायी रूप से लागू उनके संविधिक संशोधन अथवा पुनर-अधिनियमन सम्मिलित हैं, के अनुसरण में मंगिपा सिक्योरिटीज लिमिटेड ("कम्पनी") डाक

मतदान सुचना दिनांकित 25 जुलाई, 2022 **("ढाक-मतदान सूचना")** में सुचीबद्ध प्रस्तावों को

इलेक्टॉनिक वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") द्वारा पारित करने के संबंध में अपने सदस्यों से अनुमोदन

अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों तथा कार्पोरेट मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से

सामान्य बैठकों के आयोजन / डाक–मतदान प्रक्रिया संचालन के संबंध में जनरल सर्कुलर नंबर

14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 के साथ पठित जनरल सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13

अप्रैल, 2020, 22/2020 दिनांकित 15 जुन, 2020, 33/2020 दिनांकित 28 सितम्बर, 2020,

39/2020 दिनांकित 31 दिसम्बर, 2020, 10/2021 दिनांकित 23 जून, 2021, 20/2021 दिनांकित

08 दिसम्बर, 2021 तथा 3 / 2022 दिनांकित 05 मई, 2022 ("एमसीए सर्कुलर्स") के माध्यम से जारी

दिशानिर्देशों के अनुसार, डाक-मतदान सूचना, ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेशों सहित, ई-मेल द्वारा

सोमवार, 25 जुलाई, 2022 को उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनका ई-मेल पता कम्पनी

अथवा डिपॉजिटरीज / डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स अथवा रकाईलाइन फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट

लिमिटेड ("आर एवं टीए") के पास पंजीबद्ध है और जिनके नाम शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022

सदस्यगण यह भी नोट करें कि उपरोक्त एमसीए सर्कुलर्स के अनुपालन में, इस सूचना में प्रस्तावित

प्रस्ताव पर सदस्यों की सहमति / असहमति की सूचना का प्रेषण केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के

(क) समस्त शेयरधारकों, चाहे वे भौतिक रूप में शेयर धारण किए हुए हैं अथवा अभौतिक रूप में, के

(ख) कोई भी व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात शकवार, 22 जलाई, 2022 के अनसार

(ग) सचना उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके नाम शक्रवार, 22 जलाई, 2022 के अनुसार

(घ) कम्पनी ने श्री जतिन गुप्ता, अभ्यासरत कम्पनी सेक्रेटरी (सदस्यता सं. : एफसीएस 5651

(ड.) कोई सदस्य जिसे डाक मत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है वह कम्पनी को कम्पनी सेक्रेटरी, 18/14

(च) सदस्यगण निम्नलिखित वेबसाइटस : www.moongipa.net और (सीडीएसएल / एनएसडीएल

(छ) डाक मतदान / ई—वोटिंग के परिणामों की घोषणा शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022 को अथवा पूर्व अप.

तथा पारदर्शी तरीके से करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया है।

वेबसाइट नामत: www.bseindia.com पर भी देखा जा सकता है।

प्रेषित किए जाएंगे जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

लोजर परेल (ईस्ट), मुम्बई को संबोधित की जा सकती हैं।

अभिलेखित है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।

लिए ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 26 जुलाई, 2022 को आरंम होगी तथा बुधवार, 24 अगस्त,

2022 को समाप्त होगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग माडयल मतदान करने के लिए

निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त समय तथा तिथि के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति

डिपॉजिटरी द्वारा अनरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में

सदस्यों के रजिस्टर / डिपॉजिटरीज के अभिलेख में विद्यमान हैं। कोई व्यक्ति जो कि कट—ऑफ

तिथि को एक सदस्य के रूप में विद्यमान नहीं है, वह तदनुसार डाक-मतदान सूचना केवल

सीओपी सं.: 5236) को रिमोट ई-वोटिंग द्वारा संपूर्ण डाक मतदान प्रक्रिया का संचालन निष्पक्ष

डब्ल्यू.ई.ए. पुसा लेन, करोल बाग, नई दिल्ली, दिल्ली-110005 के पते पर आवेदन दे सकता है।

की वेबसाइट) पर जाकर उपर्युक्त बैठक की सूचना देख सकते हैं। उसको स्टॉक एक्सचेंज की

5.00 बजे (आईएसटी) कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में चेयरमैन अथवा उनके द्वारा उनकी ओर

से अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाएगी। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम कम्पनी

की वेबसाइट पर तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर डाले जाएंगे और उन स्टॉक एक्सचेंजों को

("कट—ऑफ तिथि") को सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों की सूची में मौजूद हैं।

माध्यम से सम्पन्न किया जाएगा

प्रदान नहीं की जाएगी।

जानकारी उददेश्यों के लिए माने।

समस्त सदस्यों को एतदहारा सुचित किया जाता है कि :

कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में देखा जा सकता है।

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-6 में आन्तरिक सडकों एवं विभिन्न प्रकार

MOONGIPA

SECURITIES LTD.

केन्द्रीय विद्यालय क्र.2 सोहना रोड, गुरूग्राम(हरियाणा) Email id: - kv2srggn@yahoo.co.in, Tel No.: 0124-2200665, 2201165

फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए सूचना

सत्र 2022–23 के लिए प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं / निर्माणकर्ताओं, सेवाप्रदाताओं जिनके पास GST/PAN एवं वैध व्यावसायिक लाइसेंस (जहां लाग हो, जैसे सरक्षा गार्ड के लिए हरियाणा का PSARA आदि) से फर्म रजिस्ट्रेशन हेत् निम्नलिखित कार्य के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

१.सुरक्षा—गार्ड ,साफ— सफाई कर्मी एवं माली, २.विज्ञान उपकरण एवं सामग्री, ३.खेलकूद सामग्री, ४.कंप्यूटर खरींद एवं AMC, 5. सीसीटीवी खरींद एवं AMC, 6. फर्नीचर खरींद एवं मरम्मत, 7. परीक्षा संबंधी एवं अन्य छपाई, ८. स्टेशनरी का सामान, ९. फ्लैक्स एवं सन बोर्ड आदि प्रिंटिंग,१०. वाहन (कार बस वैन आदि),११. कैटरिंग एवं टेंट का सामान, 12.संगीत एवं दश्य— श्रव्य सामग्री,13. बागवानी का सामान, 14. एअर कंडीशनर, वाटर कुलर एवं RO खरीद एवं AMC, 15. बिंजली का सामान एवं मरम्मत,16. प्लंबिंग का सामान एवं मरम्मत इत्यादि हेतु । निर्धारित प्रपत्र विद्यालय की वेबसाइट एवं कार्यालय में उपलब्ध है। सभी आवेदन पंजीकृत डाक/करियर आदि द्वारा दिनांक 09/08/2022 तक विद्यालय में प्रेषित किए जा सकते हैं।

प्राचार्य

नेशनल स्टैण्डर्ड (इंडिया) लिमिटेड

CIN: L27109MH1962PLC265959 पंजी. कार्या.: 412, तल-4, 17जी, वर्धमान चैम्बर, कवासजी पटेल रोड, होर्निमन सर्किल, फोर्ट मुम्बई-400001

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 26 जुलाई, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल ने सेबी (इक्विटी शेयरों का अ-सूचीकरण) विनियमन, 2021 के विनियमन 5 के अनुसार 'दि कलकत्ता स्टॉक एक्सचैंज लिमिटेड'' से कम्पनी के इक्विटी शेयरों के स्वैच्छिक असुचीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है क्योंकि उक्त स्टॉक एक्सचैंज में उसकी शेयरों का कोई व्यवसाय नहीं होता है तथा साथ ही इस कदम से संबंधित सूचीयन लागतों की भी बचत होगी। लेकिन, बीएसई लिमिटेड (एक मान्यत प्राप्त एक्सचैंज जिसका राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनल्स है) पर उसकी सूचीबद्धता कायम रहेगी।

तिथि: 27 जुलाई, 2022 स्थानः मुम्बई

मधुर मित्तल कम्पनी सचिव

Orchies

The most special way to say you care

पंजीकृत कार्यालयः 191एफ, सेक्टर-4, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122050 CIN: L36999HR1990PLC041175, वेब: www.archiesonline.com, ईमेलः archies@archiesonline.com, दूरभाषः 91 124 4966666 अशधारकों हेतु सूचना

ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") (इसके बाद "इलेक्ट्रॉनिक मोड" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से व्यापार करने के लिए आयोजित की जाएगी, जैसा कि वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित किया गया है, जिसे वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए प्रचारित-प्रसारित किया जा रहा है। स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति

के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की है। सदस्य केवल वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित हो सकते हैं और भागीदारी कर सकते हैं।एजीएम की कार्यवाहियों में भागीदारी करने, मतदान करने और देखने के लिए विवरण और अनुदेश वार्षिक आम बैठक की सचना में प्रदान किए जाएंगे। भौतिक रूप में समता अंश रखने वाले सदस्य जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, वे इसे कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत करवा सकते हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के तहत कोरम गणना के लिए की जाएगी। एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.archiesonline.com पर उपलब्ध कराई जाएगी।

यदि अंशधारक ने कंपनी / इसके आरटीए / डिपॉजिटरियों के साथ अपना ईमेल पता पंजीकत नहीं

किया है और/अथवा लाभांश प्राप्त करने के लिए बैंक खाता मैंडेट अपडेट नहीं किया है, तो उन्हें निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना चाहिएः

पंजीकरण– विवरण भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और जमा करें। (ii) अभौतिक प्रारूप में धारित अंशों के संबंध में:

अंशधारक कृपया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (''डीपी'') से संपर्क करें और डीपी द्वारा अनुसरित एवं बताई गई प्रक्रिया के अनुसार डीमैट खाते में ई-मेल पता और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।

गए अनुदेशों का पालन करके युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड के आदेश द्वारा

कृते आर्चीज लिमिटेड हस्ता./-

दिनांकः 26.07.2022

हितेश कुमार कंपनी सचिव

सार्वजनिक सूचना

सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट अंबाला ने अपने आदेश संख्या 2069-71 दिनांकः 21.07.2022 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को आदित्य बिड्ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में अधोलिखित कर्जदार द्वारा मेसर्स आदित्य बिड्ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में अनुरक्षित खाते में एससीओ नंबर 1, ऑर्बिट बिल्डिंग, सामने चंडीगढ़ सिटी सेंटर, वीआईपी रोड, जीरकपुर, पंजाब में बंधक प्रतिभृत संपत्तियों के भौतिक कब्जे की निगरानी के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया है।

क्र.	आदेश सं./	कर्जदार का नाम तथा पता	ऋण खाता सं.	13(2) में मांगकृत	प्रतिभूत आस्तियों का विवरण
सं.	तिथि			राशि	6
1	2069-71	मनु तारा चंद और गीता तारा चंद दोनों निवासी-171ए, सेठी एन्क्लेव,	LNAMB0HL-	रु. 9,13,234/−	रकबा तदादी माप 59 वर्ग गज में प्लॉट
	दिनांक	(नारायणगढ़ रोड), अंबाला बलदेव नगर, अंबाला, हरियाणा-134007	03200067147 तथा	(रुपये नौ लाख तेरह	का सम्पूर्ण भाग, प्लॉट नं. 154–सी का
	21-07-2022	इसके अलावा:- चालक विजय चावला कैरिज कंट्रक्टर एण्ड सप्लायर	LNAMB0HL-	हजार दो सौ चौंतीस	भाग, आबादी सेठी एन्कलेव, अम्बाला,
		साथ ही : 1874/10, निकट रेलवे क्रॉसिंग, बलदेव नगर, अंबाला शहर,	03200067146	मात्र)	वाका मौजा, धुलकोट हदबस्त नं. 60,
		हरियाणा-134003			तहसील एवं जिला अम्बाला, खेवत नं.
		साथ ही- हदबस्त नं. 60, ग्राम धूलकोट खसरा नं. 3/120, सेठी			377, खतौनी नं. 409, खसरा नं.
		एन्क्लेव, अंबाला सिटी, हरियाणा-134003			3//20(4-9), अम्बाला, हरियाणा

उपरोक्तानुसार उधारकर्ता/गारंटर को इस नोटिस के प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर आदित्य बिड़ला हाउसिंग को पुनर्भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, यदि उधारकर्ता इस अवधि के भीतर संस्था द्वारा मांगी गयी राशि को चुकाने में विफल रहता है, तो संपत्ति(यों) का सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिला मिजिस्ट्रेट अंबाला द्वारा पारित आदेशों के अनुसार कब्जा कर लिया जाएगा। नोटिस के निर्देश के अनुसार, यदि उधारकर्ता/गारंटर को कोई आपित्त है तो वे फाइल में डाल सकते हैं।

दिनांक : 25-07-2022

स्थान : अंबाला/हरियाणा

"IMPORTANT"

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers

or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

The most special way to say you care आर्चीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 191एफ, सेक्टर-4, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122050 CIN: L36999HR1990PLC041175, वेब: www.archiesonline.com, ईमेलः archies@archiesonline.com, दूरभाषः 91 124 4966666

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ), खाते में अंशों के अंतरण हेतू

एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षण, अंतरण एवं प्रतिदेय) नियमावली ("नियमावली") 2016 के प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी से अपेक्षित है कि वह उन सभी अदावाकृत / अप्रदत्त अशों को, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) खाता में अंतरित करे, जिनके संबंध में लाभांश, लगातार सात वर्षों तक अप्रदत्त

इसलिए, सभी रेखांकित अंशों, जिनके संबंध में वर्ष 2014-2015 के लिए पिछले 7 (सात) वर्षों के लाभांश का भुगतान / दावा नहीं किया गया है, को उक्त नियमावली के अनुसार आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है।

ऐसे अंशधारकों, जिन्होंने लगातार सात वर्षों तक अपने लाभांश को नहीं भुनाया है और इस कारण जिनके अंशों को आईईपीएफ खाते में अंतरण किया जाना है. की एक सची. को कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है:

https://archiesinvestors.in/wp-content/uploads/2022/07/Archies-Limited_IEPFPendingReflister22072022_030429.xlsx-List-of-Shareholders-for-UnpaidUnclaimed-Dividend-Shares-2014-15.pdf

करने तथा आईईपीएफ खाता में जमा किए जाने से पूर्व अंशों एवं अदावाकृत लाभांश राशि(यों) का दावा करने हेतू अपेक्षित प्रलेख जमा करने के लिए उक्त नियमावली के अनुसार आईईपीएफ खाता में अंतरित किया जाना है। अंशधारकों से अनुरोध है कि वे अंशों एवं अदावाकृत लाभांश राशि(यों) का दावा करने हेत् कंपनी के रजिस्ट्रार तथा अंश अंतरण अभिकर्ता के पास सूचनाओं के अनुसार अपेक्षित प्रलेख अग्रसारित करें। एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अंशधारक द्वारा कोई वैध दावा प्राप्त न होने की स्थिति में, कंपनी उक्त नियमावली की आवश्यकताओं के अनुसार भावी सूचना दिए बिना आईईपीएफ खाता में उक्त अंशों एवं लाभांश राशि(यों) का अंतरण कर देगी।

एवं अंशों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा। कृपया ध्यान दें कि इस तरह के अंतरण पर, अंशधारक आईईपीएफ से लाभांश सहित अंतरित अंशों का दावा कर सकते हैं, जिसके लिए विवरण www.iepf.gov.in पर उपलब्ध हैं।

कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमावली के अनुसार, आईईपीएफ खाते में अंतरित अदावाकृत लाभांश राशि

इमेल: swapann@linkintime.co.in या delhi@linkintime.co.in. फोन: 011 - 49411000 से

हस्ता./-

हितेश कुमार

Whilst care is taken prior to

इयुटी मजिस्ट्रेट सह-तहसीलदार, अंबाला

जिंदल सॉ लिमिटेड पंजी. कार्यालयः ए-1, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा – 281403 सीआईएनः एल27104यूपी1984पीएलसी023979

सूचना

(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ) विषय : कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकारण

यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के साथ पठित कार्पीरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसचित ०७ सितम्बर, २०१६ से प्रभावी निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियमावली, 2016 ("उक्त नियमावली") के प्रावधानों के अनुसरण में जारी की जा रही है, जो उन सभी शेयरों का अंतरण निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) को अंतरित करने के संबंध में है, जिनके लाभांश का भूगतान लगातार सात वर्षों अथवा अधिक से नहीं किया गया है अथवा जिनके लिए शेयरधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है।

उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत, कम्पनी संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त कार्यवाही करने हेत् सूचना प्रेषित कर चुकी है, जिनके शेयर नियमों के तहत आईईपीएफ प्राधिकारण को अंतरित किए जाने के भागी हैं।

संबंधित शेयधारक, जो भौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं तथा जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकारण में अंतरित किए जाने के भागी हैं, नोट करें कि कम्पनी शेयरों का अंतरण आईईपीएफ प्राधिकारण को करने के प्रयोजनार्थ उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के स्थान पर डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी तथा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र रद्द मान्य होंगे। इसी प्रकार से डीमैट रूप में धारित शेयर भी शेयरधारकों की ओर से कम्पनी अधिकारी द्वारा डीमैट स्लिप पर हस्ताक्षर करने द्वारा आईईपीएफ प्राधिकारण में अंतरित किए जाएंगे। शेयरधारक इसके अतिरिक्त नोट करें कि आईईपीएफ प्राधिकारण में अंतरित किए गए अदावित शेयर तथा उन पर उद्भूत सभी लाभ नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस मांगे जा

मांग लें अथवा कम्पनी को लिखें। यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारक से 20 सितम्बर, 2022 तक अथवा कम्पनी द्वारा आगे बढ़ाई गई तिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, नियमों का अनुपालन करने के लिए, शेयर नियत तिथि तक आईईपीएफ प्राधिकारण में अंतरित कर दिए उपरोक्त नियमों की प्रति संबंधित शेयरधारकों तथा आईईपीएफ के प्राधिकारण में अंतरित किए जाने के

अतएव, आपको सूचना दी जाती है कि 2014—2015 से अपना अदत्त / अदावित लाभांश तत्काल

भागी शेयरों के विवरण सहित कम्पनी द्वारा इसकी वेबसाइट (www.jindalsaw.com) पर अपलोड की जा चुकी है। आप इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए कम्पनी की वेबसाइट पर जा सकर्त हैं। यदि शेयरधारकों को विषयगत मामले तथा नियमों के बारे में कोई संदेह है, तो वे कम्पनी सेक्रेटरी जिंदल सॉ लिमिटेड, जिंदल सेंटर, 12, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, फोन

वास्ते जिंदल सॉ लिमिटेड सुनिल के. जैन स्तीन : नई दिल्ली कम्पनी सेक्रेटरी

011-011-61462259, 011-61462237, ई-मेलः investors@jindalsaw.com से सम्पर्क कर

Samco Asset Management Private Limited (Investment Manager for Samco Mutual Fund) A-1003 Naman Midtown, 10th Floor, Prabhadevi (West), Mumbai - 400 013.

Tel: +91 22 4170 8999 | Fax: +91 22 2422 4200 CIN: U65929MH2019PTC334121 | Toll Free No.: 1800 103 4757,

Website: www.samcomf.com

1996 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 05, 2018, the annual report of the

scheme of Samco Mutual Fund ("SMF") for the financial year ended March 31, 2022 have been hosted on the website of

The Investors/Unitholders may accordingly view / download the reports from the website of the Fund. Investors can also submit a request for an electronic or physical copy of the annual report, by writing to us at mfassist@samcomf.com or calling on our toll-free number 1800 103 4757 or by submitting a written request at any of

(Investment Manager for Samco Mutual Fund)

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-110 067 दुरभाषः 011-41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

कब्जा सूचना

चुंकि, **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पूर्ननिर्माण और प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों / कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और / या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

	कानूनी प्रतिनिधियों का नाम/ऋण खाता संख्या		माग सूचना की तिथि	कब्जा करन की तिथि	
77.00	श्रीमती पारुल धवन (मृत कर्जदार श्री योगेश शर्मा के सह-कर्जदार / पत्नी और कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि/कानूनी संरक्षक और सुश्री अक्षरा शर्मा एवं अक्षज शर्मा जोकि उत्तराधिकारी/ कानूनी प्रतिनिधि मृत कर्जदार श्री योगेश शर्मा हैं।)	28 फरवरी 2022 को बकाया रु. 2,01,98,469 / — (दो करोड़ एक लाख अठानवे हजार चार सौ उनहत्तर रुपये मात्र)		2022	अपार्टमेंट नं. पीवीएच0031706 जो पवेलियन हाइट्स, सेक्टर—128, जेपी ग्रीन्स विश टाउन, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201304 पर स्थित है के साथ निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।

*भुगतान और / या वसूली की तिथि तक उपार्जित जैसा भी लागु अनुसार आगे ब्याज, प्रासंगिक व्यय, लागतें, प्रभार आदि के साथ।

हालाँकि, चूँकि यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्जदार/गारंटर बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए विशेषकर उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/गारंटरों/ कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारियों ने उपरोक्त वर्णित तिथियों पर कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दर्शाई गई तिथि

उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के साथ लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर कोई भी लेनदेन हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के बंधक के अधीन होगा।

ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आकृष्ट / आमंत्रित किया जाता है / जाते हैं।

प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे किसी भी सामान्य कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रतियाँ प्राप्त कर लें।

अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपरोक्त वर्णित कर्जदारों / गारंटरों / कानुनी उत्तराधिकारियों / कानुनी प्रतिनिधियों का

प्राधिकृत अधिकारी

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

नेशनल स्टैण्डर्ड (इंडिया) लिमिटेड के लिये

आर्चीज लिमिटेड

एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 32वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस (''वीसी'') / अन्य

अनवरत् जारी कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("'एमसीए") ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर 2021 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर 2021 और 02/2022 दिनांक 05 मई 2022 (इसके बाद सामूहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के द्वारा वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एक सामान्य प्रदान दी। इन एमसीए परिपत्रों और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंपनी वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम नोटिस इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेजेगी, जिन्होंने एमसीए परिपत्रों और सेबी द्वारा 12 मई 2020, 15 जनवरी 2021 और 13 मई 2022 को जारी परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और या कंपनी

यदि अंशधारक की ईमेल आईडी, कंपनी/इसके रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट ''आरटीए'' / डिपॉजिटरी के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो ई-वोटिंग के लिए लॉग इन विवरण पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे जा रहे हैं।

(i) कृपया हमारे आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर लॉग इन करें, निवेशक सेवाओं के अंतर्गत > ईमेल / बैंक विवरण

कंपनी, एजीएम सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर वोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से होने वाली एजीएम में दूरस्थ ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने या एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम सूचना में उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, वे एजीएम सूचना में दिए

स्थानः नई दिल्ली

बोर्ड के आदेश द्वारा

वास्ते मुंगिपा सिक्योरिटीज लिमिटेड

NOTICE No. 12/2022

Annual Report of the scheme of Samco Mutual Fund Notice is hereby given that, in accordance with the provisions of Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations,

the Fund www.samcomf.com and AMFI www.amfiindia.com, respectively.

the official points of acceptance of SMF.

For Samco Asset Management Private Limited

- कर्जरामें / मार्गरमें / कार्जन उत्तराधिकारियों और अकाम राशि मांग महारा करता करते

से उपरोक्त वर्णित **क्र.सं**. की अचल परिसम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर **प्रतिकात्मक कब्जा** ले लिया है।। विशेषकर यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्ज़दारों / गारंटरों / कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतदुद्वारा सावधान किया जाता है कि

लिखित जारी पंचनामा और बनाई गई मालसूची की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और कथित कर्ज़दारों / गारंटरों / कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी

दिनांक: 26.07.2022 पंजीकृत कार्यालयः रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई-400 020

www.readwhere.com

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 26.07.2022

नजदीकी परिजनों के लिए 01 अग्रैल, 2022 से बंद है और इन लोगों के लिए 48 बंदों तक बंद रहेगी जब तक की 30 जुलाई, 2022 को समाप्त प्रथम तिमाही 30 जुन, 2022 के विलीच परिणामों की घोषणा ना कर दी जाचे । हस्ता./- प्रविता खण्डेलवाल (कंपनी सचिव)

स्थानः जयपुर

mail: investors.brl@bharatgroup.co.in Website: www.bharatgroup.co.in

website at http://www.nseindia.com.

framed under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015. For BHARAT RASAYAN LIMITED

New Delhi July 26, 2022 Company Secretary

ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड सीआईएनः एल७२९००डीएल२००९पीएलसी३४१९८०

13वीं वाषिक सामान्य बैठक तथा ई—मतदान जानकारी की सूचना

कोविड-19 महामारीजनित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा निर्गत क्रमशः सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांकित 5 मई 2020, 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी 2021, 19/2021 दिनांकित 8 दिसंबर 2021, 21/2021 दिनांकित 14 दिसंबर 2021 एवं सामान्य परिपत्र संख्या 2/2022 दिनांकित 5 मई 2022 (यहां इसमें इसके उपरांत ''एमसीए परिपत्रों'' के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी 2021 और सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई 2022 (''सेबी परिपत्र'') (यहां इसमें इसके उपरांत "परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) के निबंधनों के अंतर्गत कंपनी को अनमति दी जाती है कि वे किसी सामान्य स्थल पर सदस्यों की शारीरिक / व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों ("वीसी" / "ओएवीएम") के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक का संचालन करें। अतः परिपत्रों, कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015

माध्यम से भागीदारी करनेवाले सदस्यों की गणना कोरम की आपूर्ति के लिए की जाएगी।

लाग् विधि-व्यवस्थाओं के अनुसार प्रेषित किया जाएगा।

कंपनी सचिव-सह-अनुपालन अधिकारी

कृते ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड

JINDAL

तिथि: 26.7.2022

(Prchies

अंशघारकों हेतु सूचना (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124 (6) और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षण, अंतरण एवं प्रतिदेय) नियमावली 2016 के नियम 6 के अनुसार) एतद्द्वारा आर्चीज लिमिटेड ("कंपनी") के अंशधारकों को सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा

या अदावाकृत बना हुआ है।

कंपनी ने उन संबंधित अंशधारकों को व्यक्तिगत सूचना भेजी है, जिनके अंशों को उपयुक्त कार्रवाई

इस विषय पर किसी भी जानकारी / स्पष्टीकरण के लिए, संबंधित अंशधारक कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट - श्री स्वप्न कुमार नस्कर, मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच २, सी-1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकप्री, नई

संपर्क कर सकते हैं। बोर्ड के आदेश द्वारा कृते आर्चीज लिमिटेड

तिथि : 27 जूलाई 2022

सकते हैं।



एफसीएस : 3056

Place: Mumbai Date : July 27, 2022

स्थानः दिल्ली एनसीआर

कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

SSAMCO

MUTUAL FUND

HEXASHIELD TESTED INVESTMENTS

Authorized Signatory